

तुरंत रिलीज के लिए

ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज ने, कम्युनिटी की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए what3words के साथ साझेदारी की

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (5 मई, 2021) – ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज (Brampton Fire and Emergency Services) ने what3words के साथ साझेदारी की है। यह iOS और Android के लिए मुफ्त मोबाइल ऐप है, जिसने वर्ल्ड को 3 मी. सक्वेयर में बांटा है, प्रत्येक में बेजोड़ 3 शब्दों का पता है।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, अपनी कम्युनिटी के कल्याण के लिए समर्पित एक स्वस्थ और सुरक्षित शहर है। what3words के साथ, ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज, घटनास्थल पर तत्काल रूप से डिस्पैच को सक्षम करते हुए, असली स्थान की पहचान वाली एमरजेंसी कॉल्स का जवाब दे सकेगी, जो एमरजेंसी स्थितियों में बेहद महत्वपूर्ण है। यह उन लोगों को ढूंढने में मदद करके, ज़िंदगी-बचाने वाली सेवाओं की मदद करता है, जो गुम हो गए हों या जरूरतमंद हों और एमरजेंसी स्थिति में बताता है कि असल में मदद की जरूरत कहां पर है।

what3words क्या है?

what3words, स्थान के बारे में बात करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसने वर्ल्ड को 3 मी. सक्वेयर में बांटा है, प्रत्येक में बेजोड़ 3 शब्दों का पता है। इसका अर्थ है कि 3 शब्दों का प्रयोग करते हुए – कोई भी व्यक्ति, किसी खास बिल्डिंग के एंट्रेस से लेकर किसी हाइकिंग ट्रेल पर किसी निश्चित स्थान या फील्ड में रिमोट स्थान तक – हर स्थान का संदर्भ, किसी भी असली स्थान के लिए दे जा सकता है।

यदि कोई व्यक्ति एमरजेंसी स्थिति में है और उसे अपने स्थान का वर्णन करने में काफी मुश्किल हो रही हो, तो वह आसानी से और सही ढंग से विवरण प्रदान करने के लिए what3words का प्रयोग कर सकता है। वह व्यक्ति what3words ऐप खोलकर अपने मौजूदा स्थान के लिए what3words पता ढूंढ सकता है। what3words उस 3 मी. सक्वेयर स्थान के लिए 3 शब्द डिस्प्ले करेगा और कॉलर वे शब्द फाइर डिस्पैच को प्रदान कर सकता है, जो उन्हें डिस्पैच के लिए असली स्थान की पहचान करने के लिए कंट्रोल रूम में what3words मानचित्र में दाखिल कर सकते हैं।

यदि किसी व्यक्ति ने अपने फोन पर what3words ऐप इंस्टॉल किया हुआ है – तो यह ऑफलाइन काम करता है, ताकि वे Wi-Fi (वाई-फाई) या मोबाइल डेटे के बिना अपना 3 शब्दों का पता ढूंढ सकें। शायद मानचित्र डाउनलोड न किया जा सके लेकिन 3 शब्दों का पता तब भी दिखाया जाएगा।

what3words, अपने उपयोगकर्ताओं के स्थान का पता नहीं लगाता। यह उपयोगकर्ताओं को अपना स्थान साझा करने के लिए चयन करने का तरीका प्रदान करता है। what3words, अपने मोबाइल ऐप और मानचित्र वाले स्थान के अंदर की गई खोजों का रिकॉर्ड रखता है और इसे उस टाउन या शहर के बारे में पता होगा, जहां से खोजें की गई थीं, लेकिन यह किसी भी व्यक्तिगत लेवल पर स्थान का डेटा नहीं रखता।

what3words के बारे में अधिक जानकारी के लिए, www.brampton.ca पर जाएं।

हवाले

“स्वस्थ और सुरक्षित शहर के तौर पर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में कम्युनिटी की सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। what3words मोबाइल ऐप ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज की टीम को, अधिक असली स्थान की पहचान प्रदान करेगा, जिससे उन्हें जरूरत के समय में तत्काल रूप से और सही ढंग से एमरजेंसी कॉल्स का जवाब देने में मदद मिलेगी। मैं ब्रैम्पटन के सभी निवासियों को सलाह देता हूँ कि वे संभावी तौर पर ज़िंदगी-बचाने वाला यह ऐप डाउनलोड करें।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन एक इनोवेटिव शहर है। हम, हमारे निवासियों को प्रदान की जाने वाली हमारी सेवाओं में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूँढना जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। what3words, किसी भी असली स्थान का संदर्भ देने का आसान तरीका है, जिससे हमारा समर्पित ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज का स्टाफ, एमरजेंसी स्थितियों में हमारी कम्युनिटी को सुरक्षित रखने के लिए, तत्काल रूप से कार्य शुरू कर पाएगा।”

- रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“अच्छी-तरह संचालित शहर के तौर पर, हम हमेशा हमारे निवासियों के फायदे के लिए बहुमूल्य साझेदारियों का फायदा लेने के तरीके ढूँढते रहते हैं। what3words के साथ साझेदारी करने से, ब्रैम्पटन में एमरजेंसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति, फायर डिस्पैच को अपना स्थान, आसानी से और सही ढंग से साझा कर पाएगा। यह महत्वपूर्ण स्थितियों में समय बचाएगा और ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज को आसानी से और जल्दी से उन लोगों को ढूँढने में मदद करेगा, जिन्हें सहायता की जरूरत है।”

- शार्मेन विलियम्स (Charmaine Williams), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8; वाइस-चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“what3words वर्ल्ड को 3 मी. सक्वेयर में बांटते हुए स्थान के बारे में बात करने को आसान बनाता है, प्रत्येक में बेजोड़ 3 शब्दों का पता है। तनावपूर्ण और खतरनाक स्थितियों में, स्थान जैसे विवरणों पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एमरजेंसी में हर सेकंड महत्वपूर्ण होता है। what3words, हमारी ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज की टीम को हमारी कम्युनिटी की सेवा करने के लिए, एमरजेंसी स्थिति में असली स्थान के बारे में बताते हुए, सही ढंग से और तत्काल रूप से किसी भी स्थान पर पहुंचाने में मदद करेगा।”

- बिल बोएस (Bill Boyes), चीफ, ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में, हम टर्म ऑफ काउंसिल प्रायरिटी कि ब्रैम्पटन एक स्वस्थ और सुरक्षित शहर है, को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित हैं। हमारी फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज की टीम, ऐसा करने में हमारे साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। what3words के साथ हमारी साझेदारी, ब्रैम्पटन फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज के स्टाफ को, किसी भी स्थान पर तत्काल रूप से और सही ढंग से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाकर, हमारे शहर की कम्युनिटी की सुरक्षा में वृद्धि करेगी।”

- डेविड बैर्रिक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca